

No. of Printed Pages : 6

**BLI-223**

**BACHELOR'S DEGREE IN LIBRARY  
AND INFORMATION SCIENCE**

**(BLIS) (REVISED)**

**Term-End Examination**

**December, 2023**

**BLI-223 : ORGANIZING AND MANAGING  
INFORMATION**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 70*

---

**Note :** (i) *The question paper is in **two** Parts.  
Attempt both Parts as per instructions  
given therein.*

(ii) *Illustrate your answer with suitable  
examples and diagrams, wherever  
necessary.*

(iii) *Write the relevant question number  
before writing the answer.*

---

---

**P. T. O.**

**Part—I**

**Note :** Answer any **four** questions in about  
*500 words each.* 4×10=40

1. “Classification is the foundation study of librarianship.” Discuss.
2. What is an array ? State with examples the canons for formation of arrays of classes.
3. Define a dictionary catalogue. Explain its structure, advantages and problems.
4. Explain the physical forms of the library catalogue.
5. What is MARC ? State the structure of a MARC record.
6. Name various categories of non-book material. Explain the rules for cataloguing of cartographic material according to AACR-2 (Rev.).

**Part—II**

**Note :** Answer any **six** questions in about **250** words each. 6×5=30

1. State the salient features of UDC.
2. What is an OPAC ? State its features.
3. Explain the working of the chain indexing as given by S. R. Ranganathan.
4. What is a subject catalogue ? State basic principles for its design.
5. Describe the canons of characteristics with examples.
6. What is RDA ? Explain its functions in brief.
7. What is a Thesaurus ? Explain its structure and working.
8. Explain the concept of Web Indexing.

**BLI-223**

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि

( संशोधित ) ( बी. एल. आई. एस. )

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

बी.एल.आई.-223 : सूचना संगठन एवं पबन्धन

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

---

नोट : (i) प्रश्न पत्र दा भागों में विभाजित है। दिये गये

निर्देशों के अनुसार दोनों भागों को हल कीजिए।

(ii) जहाँ कहीं आवश्यक हो समुपयुक्त उदाहरणों

और आरेखों से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

(iii) उत्तर लिखने से पहले सम्बन्धित प्रश्न संख्या

अवश्य लिखिए।

---

---

## भाग—I

नोट : किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों  
(प्रत्येक) में दीजिए। 4×10= 40

1. “पुस्तकालय विज्ञान का आधार वर्गीकरण है।” इसकी चर्चा कीजिए।
2. पंक्ति क्या है ? पंक्तियों एवं वर्गों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपसूत्रों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।
3. शब्दकोशीय प्रसूची को परिभाषित कीजिए। इसकी संरचना, लाभों एवं समस्याओं की व्याख्या कीजिए।
4. पुस्तकालय प्रसूची के भौतिक स्वरूप की व्याख्या कीजिए।
5. ‘मार्क’ क्या है ? ‘मार्क’ अभिलेख की संरचना के बारे में बताइए।
6. ग्रंथेतर सामग्री की विविध श्रेणियों के नाम बताइए। ए. ए. सी. आर-2 (संशोधित) के अनुसार मानचित्र कला सम्बन्धी सामग्री की प्रसूची हेतु नियमों की व्याख्या कीजिए।

## भाग—II

नोट : किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों  
(प्रत्येक) में दीजिए। 6×5 = 30

1. यू. डी. सी. की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए।
2. ओपक क्या है ? इसकी विशेषताएँ बताइए।
3. एस. आर. रंगनाथन द्वारा प्रदत्त खंखला अनुक्रमणीकरण की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए।
4. विषय प्रसूची क्या है ? इसके अभिकल्पन के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताइए।
5. 'विशेषताओं के उपसूत्र' की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।
6. आर. डी. ए. क्या है ? इसकी कार्यप्रणाली की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
7. समांतर कोश क्या है ? इसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए।
8. वेब अनुक्रमणीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए।